

Allah Mujhe Dard Ke Kabil Bana Diya Lyrics | O Sathi Tere Bina Raahi Ko Raah Dikhe Na Lyrics

[Awwlyrics.com/o-sathi-lyrics/](http://awwlyrics.com/o-sathi-lyrics/)

August 13, 2021

Allah Mujhe Dard Ke Kabil Bana Diya Lyrics in Hindi

हम्म... ओ, ओ, ओ...

अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया
तूफ़ान को ही कश्ती का साहिल बना दिया

बेचैनियाँ समेट के सारे जहां की
जब कुछ ना बन सका
तो मेरा दिल बना दिया

ओ साथी, तेरे बिना
राही को राह दिखा ना
ओ साथी, तेरे बिना
हां, साहिल धुंआ धुंआ

हम्म... हम्म...

आखें मूंदे तो जाने किसे ढूँढे
की सोया जाए ना
की सोया जाए ना

किसे ढूँढें ये ख्वाहिशों की ढूँढें
की सोया जाए ना
की सोया जाए ना
मानो निंदिया पिरिया जाए ना
मानो निंदिया पिरिया जाए ना

अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया
तूफ़ान को ही कश्ती का साहिल बना दिया
बेचैनियाँ समेट के सारे जहां की
जब कुछ ना बन सका
तो मेरा दिल बना दिया

ओ साथी, तेरे बिना
राही को राह दिखा ना
ओ साथी, तेरे बिना
हां, साहिल धुंआ धुंआ...

O Sathi Tere Bina Raahi Ko Raah Dikhe Na Lyrics English

Allah mujhe dard ke
Kabil bana diya
Toofan ko hi kashti ka
Shaahil bana diya

Bechainiyan samet ke
Saare jahan ki
Jab kuch na ban saka
Toh mera dil bana diya

O saathi tere bina
Raahi ko raah dikhe na
O saathi tere bina
Shaahil dhuaan dhuaan

Aankhen moonde
Toh jaane kise dhunde
Ki soya jaye na
Ki soya jaye na

Kise dhunde
Ye khwaaisho ki boonde
Ki soya jaye na
Ki soya jaye na

Maano nindiya piroya jaye na
Maano nindiya piroya jaye na

Allah mujhe dard ke
Kabil bana diya
Toofan ko hi kashti ka
Shaahil bana diya

Bechainiyan samet ke
Saare jahaan ki
Jab kuchh na ban saka
Toh mera dil bana diya

O sathi tere bina
Raahi ko raah dikhe na
O sathi tere bina
Shaahil dhuaan dhuaan

Allah Mujhe Dard Ke Kabil Bana Diya Lyrics English Translation

O God, you've made me capable to bear this pain
You've turned the storm into a shore for the boat
After gathering all the restlessness of the world

When nothing more could be made, you created my heart
O partner, the traveller is unable to see the path without you
O partner, the shore is foggy without you

When I close my eyes then they search for someone
I'm unable to sleep
I'm unable to sleep
The drops of my desires are searching for someone
I'm unable to sleep
I'm unable to sleep
I'm unable to weave any sleep
I'm unable to weave any sleep

O God, you've made me capable to bear this pain
You've turned the storm into a shore for the boat
After gathering all the restlessness of the world
When nothing more could be made, you created my heart
O partner, the traveller is unable to see the path without you
O partner, the shore is foggy without you
